

## Content of the Course

### Theory

No. of Lectures (in hours per week): 2 Hrs. per week


Total No. of Lectures: 60 Hrs.

Maximum Marks: 60

Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: III Semester	Session: 2025-26
<b>Part A Introduction</b>				
<b>Subject: Industrial Microbiology</b>				
1	Course Code	S2INMB1T		
2	Course Title	Application of Industrial Microbiology		
3	Course Type [Core Course / Elective/ Generic Elective / Vocational /.....]	Elective		
4	Pre-requisite [if any]	To study this course, a student must have had the subject Biology In class /12 <sup>th</sup> /certificate/.		
5	Course Learning outcomes [CLO]	On successfully completing the module- CO1-Students will be able to understand working and design of a fermenter, its uses, and its different types.  CO 2-Students will be able to demonstrate the knowledge and understanding of basic fermentations processes. CO 3- Students will be able to select industrially important microbes for economical use.  CO 4-Students will be able to screen and identify organism of potential industrial importance  CO 5-Students will be able to describe various separation techniques and downstream processing different metabolites.		
6	Credit Value	3		
7	Total Marks	Max. Marks: 40+60	Min. passing marks: 35	

### Part B-Content of the Course

Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P:		
Unit	Topics	No. of Lectures
1	General concept of industrial microbiology and its applications, history & scope. Exploitation of microorganisms and their products, screening, strain development strategies, inoculum preparation, fermentation media, raw material used in media production, antifoaming agents, immobilization methods, buffers, downstream processing, Industrial Strain Preservation	15
2	Fermentation equipment and its uses, fermenter design, Types of fermenters and fermentations- single, batch, continuous, multiple, surface,	10


  
*[Handwritten signatures and initials, including "J. S. S. 11/09/23", "R. S. 11/09/23", "E. M.", "S. J.", "A. J.", "D. J.", and "B. J."]*

	submerged and solid state. Scale up and scale down process. Harvesting and recovery of intracellular and extracellular product.	10
3	Industrial products from microorganisms- Antibiotics: production of Penicillin, Streptomycin. Enzymes from microbes: Amylase, Protease. Organic acids: Citric acid, Acetic acid Amino acids: Glutamic Acid, Lysine.	
4	Ethics and law of industrial production: standard operating procedure (SOP), Good manufacturing practices (GMP), patent and copyrights, environmental hazard from fermentation industry, industrial waste management procedure and environmental safety measures	15

Keywords/Tags: Fermenters, Industrial Production, microbes

#### Part C – Learning Resources

##### Text Books, Reference Books, Other resources

1. A.H. Patel, Industrial Microbiology, Laxmi Publications; Second edition.
2. K. R. Aneja, A Textbook of Basic and Applied Microbiology, New Age International.
3. Whitaker and Stanbury. Principles of Fermentation Technology.
4. Casida, Industrial Microbiology. Tata McGraw Hill.
5. Biotechnology- Industrial Microbiology, Crueger W and Crueger A 2<sup>nd</sup> edition (Panima publication New Delhi).
6. Industrial -Microbiology, Prescott SC & Dunn CG, 4<sup>th</sup> edition (Agrobios publication, Jodhpur).
7. Industrial Microbiology : An Introduction , Waites MJ, Margan NL, Rockey JS, Higton G, 1<sup>st</sup> edition (Blackwell Science Ltd. UK).
8. Books Published by M.P Hindi, Granth Academy, Bhopal.

##### Suggested equivalent online courses:

<http://ecoursesonline.iasri.res.in/coursesc/view.php?id=461>  
<https://nptel.ac.in/courses/102/105/102105058/>  
<https://nptel.ac.in/courses/102/104/102104063/>  
<https://nptel.ac.in/courses/102/106/102106022>

#### Part D – Assessment and Evaluation

##### Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks: 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 40 marks

University Exam (UE) 60 marks

Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):	40
External Assessment : University Exam :	60

*Subramanian  
11/09/21*      *BS 11/09/21*      *SP / SP*      *DR*

Department of Microbiology  
 St. Aloysius College Autonomous Jabalpur, M.P.  
 B.Sc. III Semester  
 Industrial Microbiology: Paper 1- इलेक्टिव  
 Session 2025-26  
 औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुपयोग

भाग - अ : परिचय			
क्रमांकम डिप्लोमा	कक्षा: बी.एस.सी.	वर्ष: III Semester	सत्र: 2025-26
<b>विषय: औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान</b>			
1	पाठ्यक्रम कूट	S2INMB1T	
2	पाठ्यक्रम शीर्षक	औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुपयोग	
3	पाठ्यक्रम प्रकार	इलेक्टिव	
4	शर्त	इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वारहीं कक्षा सर्टिफिकेट में जीवविज्ञान विषय आवश्यक है।	
4	पाठ्यक्रम सीखने का परिणाम	मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा करने पर- CO1-छात्र किणवक की कार्यप्रणाली और डिज़ाइन, इसके उपयोग और इसके विभिन्न प्रकारों को समझने में सक्षम होंगे। CO 2-छात्र बुनियादी किणवन प्रक्रियाओं के जान और समझ का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। CO 3- छात्र किफायती उपयोग के लिए औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों का चयन करने में सक्षम होंगे। CO 4-छात्र संभावित औद्योगिक महत्व के जीवों की जांच और पहचान करने में सक्षम होंगे। CO 5-छात्र विभिन्न पृथक्करण तकनीकों और विभिन्न मेटाबोलाइट्स के डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण का वर्णन करने में सक्षम होंगे। CO 6-छात्र औद्योगिक उत्पादन से संबंधित विभिन्न नैतिकता और कानून की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे।	
5	श्रेय मूल्य	3	
	कुल अंक	अधिकतम अंक: $40+60 = 100$	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35

11/09/25  
Signature

11/09/25  
Sri /

✓

✓

Om

भाग-ब-पाठ्यक्रम सामग्री

कुल संख्या व्याख्यानों की संख्या- द्यूटीरियत- पैकिटकल (प्रति सप्ताह घंटे में):

इकाई	शीर्षक	व्याख्यानों की संख्या
1	सुक्षमजीव विज्ञान के सामान्य सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, इतिहास एवं व्यापकता, सुक्षमजीव एवं उनके उत्पादों का समुपयोजन, छानवीन, स्ट्रेन विकास रणनीतियां, संरोप तैयार करना, किन्दवन माध्यम, माध्यम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल, एंटीफोमिंग कार स्थिरीकरण की विधियां, वफर, अनुप्रवाह प्रसंस्करण, औद्योगिक सुक्षमजीव स्ट्रेन संरक्षण	15
2	किन्डवक उपकरण और उसके उपयोग, बनावट, प्रकार, किन्दवन के प्रकार, एकल, बैच, निरंतर, विभिन्न, सतही, जलमग्न, ठोस अवस्था किन्दवन, उचित अनुपात में बड़ा छोटा करने की प्रक्रिया, अंतरकोशकीय अवं वाह्य कोशकीय उत्पादों की हार्वेस्टिंग.	10
3	सुक्षमजीवों के औद्योगिक उत्पाद-प्रतिजैविक: पेनिसिलिन एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन, सुक्षमजीवों के एंजाइम: एमिलेज, प्रोटीएस का उत्पादन, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड का उत्पादन, एमिनो अम्ल, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन का उत्पादन	10
4	औद्योगिक उत्पादन के नीति एवं नियम: मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अच्छा विनिर्माण अभ्यास (GMP), पेटेंट और कॉपीराइट, किन्दवन उद्योग से होने वाली पर्यावरण हानि। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा के उपाय	15

मुख्य शब्द, टैग: किन्डवक उपकरण, सुक्षमजीवों के औद्योगिक उत्पाद

भाग-सी सीखने के संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

सुझाए गए रीडिंग:

- ए. एच.पटेल। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, लक्ष्मी प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन.

11/09/21  
BMS

11/09/21  
BMS

JY

JY  
BMS

BMS